



क्या हैं आज के खेल

बुलंद मीडिया

भोपाल, रायपुर, बिलासपुर, एवं दुर्ग से एक साथ प्रकाशित

संपादक - मनोज पाण्डेय नं. 9754750321



जाने फूचर के बारे में..

स्पॉर्ट : 12

अंक : 321

भोपाल मंगलवार 7 मई 2024

पृष्ठ : 8

मूल्य : 02/-

तीसरा फेज, 11 राज्यों की 93 सीटों पर वोटिंग आज

एमपी में मामा, मध्यांतरा और राजा की किस्मत दाव पर

नई दिली. लोकसभा चुनाव के तीसरे फेज में मंगलवार (मई) को 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर वोटिंग होगी। पहले इस फेज में 10 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों की 95 सीटें थीं, लेकिन 21 अप्रैल को सूख से काशेव प्रद्यानी की पर्वत दृढ़ होने और 8 केंद्रों के नामांकन गाप से लेने के बाद भाजपा के बुझाव दलाल निर्विरोध निर्वित हो चुके हैं।



प्रदेश की 9 लोकसभा सीट पर वोटिंग आज

लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में भाजपा चुनाव की एमपी की 9 सीटों पर मतदान होगा। वोटिंग पार्टीया इंडिएन समेत अन्य सामग्री लेकर बृथ के लिए चुनाव हो रही है। प्रदेशभर में 81 हजार से अधिक कर्मचारियों की तैनाती चुनाव आयोग ने की है।



मां-बेटे के मोह में पार्टी का सत्यानाश कर रही- सीएम

उसको दो ही बच्चे दिख रहे एक बेटी और एक बेटा, पूरी पार्टी जाए भाड़ में

उज्जैन। मुख्यमंत्री मोहन यादव सोमवार को उज्जैन लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। वे आलोटों, फिर तराना और आश्वासनों में उज्जैन शहर के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। मनोरमा गार्ड में महिला मोर्चे के कार्यक्रम में सीएम के अगवानी शांख को बजाकर की गई। इस दौरान सीएम ने सभी महिला कार्यकर्ता का हाथ जोड़कर अभिवादन किया।

सीएम ने की पीएम की तरीफ

पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि एक तरफ भारत माता का बेटा जिसने अपनी भारत माता का सम्मान बढ़ाया, जिस दिन उनकी माँ ने शरीर छोड़ा, माँ की अंतिम हुई और भारत माँ की सेवा करने आ गये। करीब दो घंटे देरी से पहुंचे सीएम मोहन यादव के निशान पर रहे संसिना गांधी गाहल गांधी और प्रियंका गांधी। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में जबलपुर में रानी दुर्गावती ऐसी रानी हुई, जिसने जीते जी पूरी ताकत से मुगलों से युद्ध लड़ा और जब उन्हें लगा कि वे शरीर हो सकती हैं।

झारखंड में झड़ी की कार्टवाई पर ओडिशा में बोले पीएम मोदी

पड़ोसी राज्य में नोटों का पहाड़ मिल रहा

ओडिशा. प्रवर्तन निर्देशालय की ओर से झारखंड में भारी मात्रा में नकद जल किए जाने का जिक्र पीएम नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में एक चुनावी ईलैन में की। ओडिशा के नवरंगपुर में एक चुनावी सभा के दैरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्रीय एजेंसी की कार्यवाई की कुछ लोग सराहना कर रहे हैं तो कुछ लोग इस बटाधार और लूट को दोकने की आगवानी कर रहे हैं। आज भाजपा ने ओडिशा की बेटी को देश का सबसे बड़ा पद दिया



केंद्र की योजनाओं पर राज्य सरकार अपना फोटो लगवाती है

पीएम बोले- केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए 10 हजार करोड़ रुपए ओडिशा को दिए। वो पैसे यहां की सरकार सही से खर्च ही नहीं कर पाए। मोदी गांव में सड़कों बनाने के लिए पैसा भेजता है, लेकिन यहां गांवों की हालत खराब है। मोदी से दूरी से पुरात चावल के लिए ऐसे भेजता है, लेकिन BJD सरकार इस योजना पर भी अपना फोटो विकापा देती है।

भाजपा ने ओडिशा की बेटी को देश का सबसे बड़ा पद दिया

प्रधानमंत्री ने कहा- भाजपा ने बहुत गांवर से ओडिशा की मिट्टी में जन्मी, ओडिशा की बेटी को देश का सबसे बड़ा पद दिया है। ये मेरा सोचाया है कि राष्ट्रपति द्वापदी सुर्मु जी मुझे लगातार ओडिशा के विकास के लिए बहुत बारीक-बारीक चीजें बताती हैं।

मोदी बोले-एमपी को दौड़ा रहे हैं सीएम मोहन यादव

भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मप्र के सीएम डॉ मोहन यादव की तारीफ की है। उत्तर प्रदेश के इतावा में चुनाव प्रचार के दौरान एक जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उजावा की हालत खराब हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सपा वाले जिस समाज का ठेकेदार होने का दावा करते हैं, वह भ्रम भी टूट जाएगा... या तो यह अपने परिवार का भला करते हैं या फिर अपने बोट बैंक का... आप लोग याद रखिए... आज भी सपा को पूरे प्रदेश में उपीयोदय बनाने के लिए अपने परिवार के बाहर कोई बदला नहीं मिला। जबकि यह भाजपा है जिसमें कोई भी कार्यक्रम बड़े-से बड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सपा वाले जिस समाज का ठेकेदार होने का दावा करते हैं, वह भ्रम भी टूट जाएगा... या तो यह अपने परिवार का भला करते हैं या फिर अपने बोट बैंक का... आप लोग याद रखिए... आज भी सपा को पूरे प्रदेश में उपीयोदय बनाने के लिए अपने परिवार के बाहर कोई बदला नहीं मिला। जबकि यह भाजपा है जिसमें कोई भी कार्यक्रम बड़े-से बड़े हैं।



नेताओं पर निशाना साधा मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि हम उन्हें बोला नहीं हैं। डरने वाले डरते होंगे। हम मोहन जी के पड़े हैं। इसलिए जबकि यह भाजपा की नीति, यह है भाजपा की रीति, यह है भाजपा का जीता जागता उदाहरण। सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा- तीन-चार दिन बाद बोट डलने वाले हैं।

3-4 आतंकियों ने की वारदात

पुंछ हमले में पाकिस्तान के आतंकी संगठन लरकर का हाथ

पुंछ. एजेंसी किलोमीटर से अधिक के दायरे को धेरकर आतंकियों का पता लगाने में जुटे हैं। तलाशी काफिले पर आतंकी हालते में पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-ताहद का हाथ अधिक लोगों को लगाव गया है। इस दैरान बताया जा रहा है। ऐसी आशंका है कि हमले में तीन चाहते आतंकी शामिल हो रहे हैं, जिन्होंने घात लगा रखा था। हमले का मास्टर माइंड अबू हमजा बताया जा रहा है जो डीजीपी अलौकिक अपारंपारिक तरीकों से अधिक लोगों को हताहत करने के लिए एक असाधारण रक्षणात्मक है। अलौकिक अपारंपारिक तरीकों को हताहत करने के लिए एक असाधारण रक्षणात्मक है। अलौकिक अपारंपारिक तरीकों को हताहत करने के लिए एक असाधारण रक्षणात्मक है। अलौकिक अपारंपारिक तरीकों को हताहत करने के लिए एक असाधारण रक्षणात्मक है। अलौकिक अपारंपारिक तरीकों को हताहत करने के लिए एक असाधारण रक्षणात्मक है।



अलौकिक अपारंपारिक तरीकों को हताहत करने के लिए एक असाधारण रक्षणात्मक है। अलौकिक अपारंपारिक तरीकों को हताहत करने के लिए एक असाधारण रक्षणात्मक है। अलौकिक अपारंपारिक तरीकों को हताहत करने के लिए एक असाधारण रक्षणात्मक है। अलौकिक अपारंपारिक तरीकों को हताहत करने के लिए एक असाधारण रक्षणात्मक है।

बोली-घर वापस जाने जैसा

भारतीय मूल की सुनीता तीसरी बार अंतरिक्ष की उड़ान भरने को तैयार

वॉइसिंगटन, एंड्रेसी

भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स एक बार फिर अंतरिक्ष जाने के लिए तैयार हैं। इस बार उनके साथ बुच बिल्मोर भी रहेंगे। नासा के द्वारा अनुभवी अंतरिक्ष यात्री बोल्डिंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यात्रा में सवार होकर अंतरिक्ष यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। एक पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष यात्रा होगा, जो अनुभवी अंतरिक्ष यात्रा की हालत खराब हो रही है। अलावा अमेरिका निर्वाचन एम4 कार्बाइन और स्टील स्टील की गोलियों का भी इसीलाइनर किया। हमले के बाद हमलावर जंगल में भागकर छिप गए हैं। जम्मू के आईजीपी अनंद जैन और सेना है। वहाँ, दलशास्त्रीय एंजेसियों के विरुद्ध अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया।



पूरी हो गई नासा के तीन उपग्रेडों की तारीफ

की उपग्रेडों के संबंध में चिंता

धर्मी पर नजर रखने वाले नासा के तीन उपग्रेडों की उपग्रेडी ही पूरी हो गई है। लंबे वक्त से उनके साथ बुच बिल्मोर भी रहेंगे। इसलिए नासा के अंतरिक्ष यात्री जिन नहीं हैं। डरने वाले डरते होंगे। हम मोहन जी के पड़े हैं। इसलिए जबकि यह भाजपा की नीति, यह है भाजपा की रीति, यह है भाजपा का जीता जागता उदाहरण। सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा- तीन-चार दिन बाद बोट डलने वाले हैं।

उ

संक्षिप्त समाचार

गोरक्षा दल ने स्थवार्ड पानी की नौ टकियाँ

करता। गोरक्षा दल श्रीराजाराम सेवा कमेटी द्वारा काली माता मंदिर के पास ओमशी किरणा स्टोर, जनपद पंचायत के समान महाकाली दर्शनालय, पुलिस छोटी, चौबै हाटल, हाइवे पर पर टीवीएस एजेंसी, आई नल करेस आदि जगहों पर पानी की 9 टकियाँ रखवाई हैं। इस अवसर पर गोरक्षा दल श्रीराजाराम सेवा कमेटी के प्रिस दुबे, अश गुकुर, मनन गोयल, वंश श्रीवास्तव आदि लोग उपर्युक्त रहे।

जगदीश प्रसाद बने तेली महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष

शिवपुरी। अधिक भारीय तेली महासभा ने पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष जगदीश प्रसाद साह को महासभा का प्रदेश उपाध्यक्ष मनोनीत किया है। महासभा ने उनसे समाज सुधार के लिए कार्य करने की अपेक्षा की है। जिस उठाने वर्षों वाले मोदी महिला संस्करण को बदल कार्य करने का आशासन दिया है।

मध्यस्थता से प्रकरणों के निराकरण की समझाइश।

मध्यस्थता से कराएं प्रकरणों का निराकरण

जौरा। जौरा स्थित न्यायालय परिसर में मध्यस्थता जारीरकता शिविर का आयोजित किया गया। जिसमें तृतीय जिला न्यायाधीश एवं तहसीली विधिक रेखा समिति के अध्यक्ष अनिल कुमार पाठक विशेष रूप से उत्तरित थे। इस अवसर पर आगामी 11 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बाहर में जानकारी दी गई। शिविर में बैंकी, वीमा कंपनी, नगर पालिका, विवृत वितरण कंपनी के उपस्थित अधिकारीओं को न्यायाधीश में लेकिन राजीनीता योग्य प्रकरणों का लोक अदालत के माध्यम से निराकरण करने की समझाइश दी गई। शिविर के दौरान अनुग्रह त्यागी प्रथम जिला न्यायाधीश शिवपुरी डावर परिषद मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सुधार त्रिपाठी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, महेश कुमार त्रिपाठी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सुधी पूनम मंगरोलिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील अधिकारी संघ के अध्यक्ष सुरेन्द्र सिंह सिक्करवार, सचिव शिवकुमार शर्मा राहित अन्य अधिकारी एवं पक्षकार उपस्थित रहे।

चुनावी शोरगुल थमा, अब प्रत्याशीयों के परिणाम की घड़ी आज मतदाता करेंगे फैसला

निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान के लिए बाहरी लोगों को जिला मुख्यालय छोड़ने के निर्देश

नगर संवाददाता, शिवपुरी

लोकसभा चुनाव के चलते घिले 15 दिनों से चल रहा शोरगुल आज थम गया है। अब प्रत्याशी एवं कार्यकर्ता घर-घर जाकर मानिकों से सीधा संवाद लेते हुए परिषाकरण ने बाहरी लोगों को जिले की सीधा संवाद लेते हुए प्रतिवाचित रहेंगे।

1647 मतदान दल कराएंगे मतदान जिले में 1647 मतदान दल गठित किए गए हैं। महिला प्रबंधकीय 154 वर्ष समाजी भी बांधों और उद्देशों के लिए गए हैं। 70 माझों आनंदवर्जन और 167 सेवक लोकसभा निवाचन 2024 के तहत तीसरे चरण में जारी है।

जिले में 1647 मतदान दल संपन्न कराएंगे। एक दिवस पूर्व मतदान दलों को समाजी भी बांधों और उद्देशों के लिए गए हैं। महिला प्रबंधकीय 154 वर्ष समाजी भी बांधों और उद्देशों के लिए गए हैं। मतदान दल संपन्न प्रतिवाचित रहेंगे।

मतदान केंद्रों पर किए गए हैं खास इंतजाम

जिले में 7 मई की तीसरे वरण का मतदान होगा। इकठे लिए पूरी तैयारी कर ली गई। मतदान केंद्रों पर पहुंचे मतदाताओं को गर्मी में परेशान न होना पड़े, इसके लिए मतदान केंद्रों पर खास इंतजाम भी किए गए हैं। लोकसभा निवाचन 2024 के तहत तीसरे चरण में जारी होता है।

शरबत, पीने के लिए टांडा पानी, शामियाना, बैठक व्यवस्था, दवायां तहत अन्य व्यवस्थाएं की जाएं जाएंगी। टांडी गर्मी के समय को देखते हुए टंडी द्वारा के लिए कूलर की व्यवस्था भी गई है। इसके साथ ही दिव्यांग, बुजुर्ग मतदाताओं को कतार में खड़ा न होना पड़े, उनका तुरंत मतदान हो जाए, इसकी भी व्यवस्थाएं की गई हैं। जिले में 24 जून की तारीख से लोकसभा निवाचन 2024 के तहत तीसरे चरण में जारी होता है।

खड़ा न होना पड़े, उनका तुरंत मतदान हो जाए, इसकी भी व्यवस्थाएं की गई हैं। जिले में 24 जून की तारीख से लोकसभा निवाचन 2024 के तहत तीसरे चरण में जारी होता है।

खड़ा न होना पड़े, उनका तुरंत मतदान हो जाए, इसकी भी व्यवस्थाएं की गई हैं। जिले में 24 जून की तारीख से लोकसभा निवाचन 2024 के तहत तीसरे चरण में जारी होता है।

खड़ा न होना पड़े, उनका तुरंत मतदान हो जाए, इसकी भी व्यवस्थाएं की गई हैं। जिले में 24 जून की तारीख से लोकसभा निवाचन 2024 के तहत तीसरे चरण में जारी होता है।

खड़ा न होना पड़े, उनका तुरंत मतदान हो जाए, इसकी भी व्यवस्थाएं की गई हैं। जिले में 24 जून की तारीख से लोकसभा निवाचन 2024 के तहत तीसरे चरण में जारी होता है।

खड़ा न होना पड़े, उनका तुरंत मतदान हो जाए, इसकी भी व्यवस्थाएं की गई हैं। जिले में 24 जून की तारीख से लोकसभा निवाचन 2024 के तहत तीसरे चरण में जारी होता है।

खड़ा न होना पड़े, उनका तुरंत मतदान हो जाए, इसकी भी व्यवस्थाएं की गई हैं। जिले में 24 जून की तारीख से लोकसभा निवाचन 2024 के तहत तीसरे चरण में जारी होता है।

खड़ा न होना पड़े, उनका तुरंत मतदान हो जाए, इसकी भी व्यवस्थाएं की गई हैं। जिले में 24 जून की तारीख से लोकसभा निवाचन 2024 के तहत तीसरे चरण में जारी होता है।

खड़ा न होना पड़े, उनका तुरंत मतदान हो जाए, इसकी भी व्यवस्थाएं की गई हैं। जिले में 24 जून की तारीख से लोकसभा निवाचन 2024 के तहत तीसरे चरण में जारी होता है।

खड़ा न होना पड़े, उनका तुरंत मतदान हो जाए, इसकी भी व्यवस्थाएं की गई हैं। जिले में 24 जून की तारीख से लोकसभा निवाचन 2024 के तहत तीसरे चरण में जारी होता है।

खड़ा न होना पड़े, उनका तुरंत मतदान हो जाए, इसकी भी व्यवस्थाएं की गई हैं। जिले में 24 जून की तारीख से लोकसभा निवाचन 2024 के तहत तीसरे चरण में जारी होता है।

खड़ा न होना पड़े, उनका तुरंत मतदान हो जाए, इसकी भी व्यवस्थाएं की गई हैं। जिले में 24 जून की तारीख से लोकसभा निवाचन 2024 के तहत तीसरे चरण में जारी होता है।

खड़ा न होना पड़े, उनका तुरंत मतदान हो जाए, इसकी भी व्यवस्थाएं की गई हैं। जिले में 24 जून की तारीख से लोकसभा निवाचन 2024 के तहत तीसरे चरण में जारी होता है।

खड़ा न होना पड़े, उनका तुरंत मतदान हो जाए, इसकी भी व्यवस्थाएं की गई हैं। जिले में 24 जून की तारीख से लोकसभा निवाचन 2024 के तहत तीसरे चरण में जारी होता है।

खड़ा न होना पड़े, उनका तुरंत मतदान हो जाए, इसकी भी व्यवस्थाएं की गई हैं। जिले में 24 जून की तारीख से लोकसभा निवाचन 2024 के तहत तीसरे चरण में जारी होता है।

खड़ा न होना पड़े, उनका तुरंत मतदान हो जाए, इसकी भी व्यवस्थाएं की गई हैं। जिले में 24 जून की तारीख से लोकसभा निवाचन 2024 के तहत तीसरे चरण में जारी होता है।

खड़ा न होना पड़े, उनका तुरंत मतदान हो जाए, इसकी भी व्यवस्थाएं की गई हैं। जिले में 24 जून की तारीख से लोकसभा निवाचन 2024 के तहत तीसरे चरण में जारी होता है।

खड़ा न होना पड़े, उनका तुरंत मतदान हो जाए, इसकी भी व्यवस्थाएं की गई हैं। जिले में 24 जून की तारीख से लोकसभा निवाचन 2024 के तहत तीसरे चरण में जारी होता है।

खड़ा न होना पड़े, उनका तुरंत मतदान हो जाए, इसकी भी व्यवस्थाएं की गई हैं। जिले में 24 जून की तारीख से लोकसभा निवाचन 2024 के तहत तीसरे चरण में जारी होता है।

खड़ा न होना पड़े, उनका तुरंत मतदान हो जाए, इसकी भी व्यवस्थाएं की गई हैं। जिले में 24 जून की तारीख से लोकसभा निवाचन 2024 के तहत तीसरे चरण में जारी होता है।

खड़ा न होना पड़े, उनका तुरंत मतदान हो जाए, इसकी भी व्यवस्थाएं की गई हैं। जिले में 24 जून की तारीख से लोकसभा निवाचन 2024 के तहत तीसरे चरण में जारी होता है।

खड़ा न होना पड़े, उनका तुरंत मतदान हो जाए, इसकी भी व्यवस्थाएं की गई हैं। जिले में 24 जून की तारीख से लोकसभा निवाचन 2024 के तहत तीसरे चरण में जारी होता है।

खड़ा न होना पड़े, उनका तुरंत मतदान हो जाए, इसकी भी व्यवस्थाएं की गई हैं। जिले में 24 जून की तारीख से लोकसभा निवाचन 2024 के तहत तीसरे चरण में जारी होता है।

खड़ा न होना पड़े, उनका तुरंत मतदान हो जाए, इसकी भी व्यवस्थाएं की गई हैं। जिले में 24 जून की तारीख से लोकसभा निवाचन 2024 के तहत तीसरे चरण में जारी होता है।

खड

संक्षिप्त समाचार



पत्रकार संतोष अवर्सी के निधन पर पत्रकारों ने की शोकसभा

पन। विगत दिनों पत्रा जिले के पत्रकार संतोष अवर्सी जी का स्वर्गवास हो गया था जिसको लेकर पत्रकार एकता कार्यालय में श्रद्धाली व शोकसभा रुई गई जिसमें सभी पत्रकार शामिल ने मृत आपकी सती के लिये शोकदण्डन व श्रद्धाली अर्पण की। कार्यक्रम में इज्जेन्ड गर्व, मरण मिश्र, शिवकुमार त्रिपाठी, शिवकिशोर पाण्डेय, राकेश शर्मा, नईम खान, सुशान्त चौरसिया, बाल किंवदन शर्मा, टारवार खान, सोरेश सह, लक्ष्मीकांत शर्मा, डॉ मदन शर्मा, अतुल रैकवार, लकी, सुपान्स शर्मा, एम के एन दुवेंदा, राजेश शुक्रान, अमित सिंह, बराम व्यास सहित सभी पत्रकार उपस्थित हुए।

शिक्षक अधिकारी की पती का अचानक निधन, विप्र समाज, शिक्षा विभाग संघ परिवार ने किया शोक व्यक्त

अमानंगज। अमानंगज तहसील क्षेत्र रामपुर के प्रतीक्षिण पांडे परिवार के सदस्य शिक्षा विभाग में शोक शिक्षक अधिकारी कुमार पांडे की पती श्रीमती नीतु पांडे 40 वां का हृदय गति रुक्खाने से अचानक तकरीबन दोपहर 2 बजे अपने अमानंगज वाले निवास पर निधन हो गया। जीसे ही इस खबर की जानकारी अधिकारी वर्ष परिवार नाते रितेवारों, सहित समाजिक संगठनों को लगी रसी जहां भारी शोक की लहर छा गई उनका अतिम संस्कार रामपुर ग्राम में ही कल हिंदू रीत रिवाज के अनुसार करली गयी थी। राजस्व शिक्षा विभाग पता की दीली मौनीरंगिक कारण संस्कृत बाहुदारी के बारे में अतिक्रमण हो चुका है व आगे भी युद्ध सर पर जारी है। अतिक्रामक न तो प्राचीन तालाबों, मदिरों, मकबरों की जमीन छोड़ रहे और न ही स्मशान व नाला की भूमि को छोड़ रहे। जहां देखो वहां अवैध शुगांगा बनाकर पड़ी है। चारों तरफ हरियाली फैली रहती थी। शेर जमीन के बड़े क्षेत्रों को अपने बड़े क्षेत्रों में लेकर शर की सुंदरता को बिगाढ़ रखी है। अवैध गतिविधियों संचालित कर रहे हैं। राजस्व विभाग पता की दीली मौनीरंगिक कारण संस्कृत हाउस पता जाहां क्लेक्टर सहित बड़े अधिकारियों के बंगले हैं वहां से लेकर उससे जुड़े मदार दुंगा की पूरी पहाड़ी की अतिक्रमण द्वारा शक्ति बढ़ रही है। मदार दुंगा की पहाड़ी व इसके ऐरेया में सैकड़ों की तादत शुगांगा बनाकर बड़े क्षेत्रफल की जमीनों पर पश्चर की खुखरी उठा दी गई है एवं यहां से अवैध गतिविधियों

द्वारा दी गई वर अपने पीछे रोता विनाशक परिवार छोड़ गई उनके निधन पर स्थानीय शिक्षा विभाग विप्र समाज सहित संघ परिवार में शोक संस्कार वाक्य करते हुए उनकी आत्मा की शोक द्वारा रुद्ध सहन करने की शक्ति प्रदान करने की।

पूज्य आर्यका माताजी का अमानंगज में मंगल प्रवेश



अमानंगज। बुंदेलखण्ड के प्रमुख जैनार्थ गणगार्चय परम पूज्य 108 श्री विराग सागर जी महाराज की परम प्राप्तिविद्या जैन सादी पूज्य 105 अर्थिका श्री दो माताजी ?की भव्य आगामी मंगल प्रवेश 05 मई 2024 रविवार को अमानंगज में जैन समाज द्वारा कर्यालय गणगार्चय परम पूज्य 108 श्री विराग सागर जी महाराज की परम प्राप्तिविद्या जैन सादी पूज्य 105 अर्थिका श्री दो माताजी ?की भव्य आगामी मंगल प्रवेश 05 मई 2024 रविवार को अमानंगज में जैन समाज के बाहर किसुनगढ़ की तरफ से हुआ है। जैन समाज के अध्यक्ष नरेन्द्र जैन, संदेश जैन विजय जैन बबूलालजैन बसंत जैन आदि विभिन्न संस्कृत उपस्थित रहे। अब दो दिनों तक मंदिर में भक्तगण लैंगे।

पत्रा शहर के चारों तरफ शासकीय जमीनों में अवैध अतिक्रमण

■ अतिक्रामकों ने राजीगंज मोहल्ला स्थित सिंह सागर व लोकपाल सागर तालाब तक को नहीं छोड़ा।

■ राजस्व अधिकारियों द्वारा नहीं दिया जा रहा ध्यान

पत्रा (नि.प्र.)

जिला मुख्यालय पता के चारों तरफ वेश्वरीमती जमीनों पर अतिक्रमण हो चुका है व आगे भी युद्ध सर पर जारी है। अतिक्रामक न तो प्राचीन तालाबों, मदिरों, मकबरों की जमीन छोड़ रहे और न ही स्मशान व नाला की भूमि को छोड़ रहे। जहां देखो वहां अवैध शुगांगा बनाकर पड़ी है। चारों तरफ हरियाली फैली रहती थी। शेर जमीन के बड़े क्षेत्रों में तक सुनारे दीरे थी वह आज पूरी वीरान पड़ी हुई है। गरीब व निर्धन लोगों के नाम पर मदार दुंगा-बड़े-बड़े लोग कार्यक्रम कर इस पूरे ऐरिया की शब्दल बिगाड़ दी है। अतिक्रामकों का कब्जा होने से पूरे ऐरिया में गतिविधियों के साथ-साथ अराजकता संचालित कर रहे हैं। राजस्व विभाग पता की दीली मौनीरंगिक कारण संस्कृत हाउस पता जाहां क्लेक्टर सहित बड़े अधिकारियों के बारे में अतिक्रमण हो चुका है व आगे भी युद्ध सर पर जारी है। अतिक्रामक न तो प्राचीन तालाबों, मदिरों, मकबरों की जमीन छोड़ रहे और न ही स्मशान व नाला की भूमि को छोड़ रहे। जहां देखो वहां अवैध शुगांगा बनाकर पड़ी है। चारों तरफ हरियाली फैली रहती थी। शेर जमीन के बड़े क्षेत्रों में तक सुनारे दीरे थी वह आज पूरी वीरान पड़ी हुई है। गरीब व निर्धन लोगों के नाम पर मदार दुंगा-बड़े-बड़े लोग कार्यक्रम कर इस पूरे ऐरिया की शब्दल बिगाड़ दी है। अतिक्रामकों का कब्जा होने से पूरे ऐरिया में गतिविधियों के साथ-साथ अराजकता संचालित कर रहे हैं। राजस्व विभाग पता की दीली मौनीरंगिक कारण संस्कृत हाउस पता जाहां क्लेक्टर सहित बड़े अधिकारियों के बारे में अतिक्रमण हो चुका है व आगे भी युद्ध सर पर जारी है। अतिक्रामक न तो प्राचीन तालाबों, मदिरों, मकबरों की जमीन छोड़ रहे और न ही स्मशान व नाला की भूमि को छोड़ रहे। जहां देखो वहां अवैध शुगांगा बनाकर पड़ी है। चारों तरफ हरियाली फैली रहती थी। शेर जमीन के बड़े क्षेत्रों में तक सुनारे दीरे थी वह आज पूरी वीरान पड़ी हुई है। गरीब व निर्धन लोगों के नाम पर मदार दुंगा-बड़े-बड़े लोग कार्यक्रम कर इस पूरे ऐरिया की शब्दल बिगाड़ दी है। अतिक्रामकों का कब्जा होने से पूरे ऐरिया में गतिविधियों के साथ-साथ अराजकता संचालित कर रहे हैं। राजस्व विभाग पता की दीली मौनीरंगिक कारण संस्कृत हाउस पता जाहां क्लेक्टर सहित बड़े अधिकारियों के बारे में अतिक्रमण हो चुका है व आगे भी युद्ध सर पर जारी है। अतिक्रामक न तो प्राचीन तालाबों, मदिरों, मकबरों की जमीन छोड़ रहे और न ही स्मशान व नाला की भूमि को छोड़ रहे। जहां देखो वहां अवैध शुगांगा बनाकर पड़ी है। चारों तरफ हरियाली फैली रहती थी। शेर जमीन के बड़े क्षेत्रों में तक सुनारे दीरे थी वह आज पूरी वीरान पड़ी हुई है। गरीब व निर्धन लोगों के नाम पर मदार दुंगा-बड़े-बड़े लोग कार्यक्रम कर इस पूरे ऐरिया की शब्दल बिगाड़ दी है। अतिक्रामकों का कब्जा होने से पूरे ऐरिया में गतिविधियों के साथ-साथ अराजकता संचालित कर रहे हैं। राजस्व विभाग पता की दीली मौनीरंगिक कारण संस्कृत हाउस पता जाहां क्लेक्टर सहित बड़े अधिकारियों के बारे में अतिक्रमण हो चुका है व आगे भी युद्ध सर पर जारी है। अतिक्रामक न तो प्राचीन तालाबों, मदिरों, मकबरों की जमीन छोड़ रहे और न ही स्मशान व नाला की भूमि को छोड़ रहे। जहां देखो वहां अवैध शुगांगा बनाकर पड़ी है। चारों तरफ हरियाली फैली रहती थी। शेर जमीन के बड़े क्षेत्रों में तक सुनारे दीरे थी वह आज पूरी वीरान पड़ी हुई है। गरीब व निर्धन लोगों के नाम पर मदार दुंगा-बड़े-बड़े लोग कार्यक्रम कर इस पूरे ऐरिया की शब्दल बिगाड़ दी है। अतिक्रामकों का कब्जा होने से पूरे ऐरिया में गतिविधियों के साथ-साथ अराजकता संचालित कर रहे हैं। राजस्व विभाग पता की दीली मौनीरंगिक कारण संस्कृत हाउस पता जाहां क्लेक्टर सहित बड़े अधिकारियों के बारे में अतिक्रमण हो चुका है व आगे भी युद्ध सर पर जारी है। अतिक्रामक न तो प्राचीन तालाबों, मदिरों, मकबरों की जमीन छोड़ रहे और न ही स्मशान व नाला की भूमि को छोड़ रहे। जहां देखो वहां अवैध शुगांगा बनाकर पड़ी है। चारों तरफ हरियाली फैली रहती थी। शेर जमीन के बड़े क्षेत्रों में तक सुनारे दीरे थी वह आज पूरी वीरान पड़ी हुई है। गरीब व निर्धन लोगों के नाम पर मदार दुंगा-बड़े-बड़े लोग कार्यक्रम कर इस पूरे ऐरिया की शब्दल बिगाड़ दी है। अतिक्रामकों का कब्जा होने से पूरे ऐरिया में गतिविधियों के साथ-साथ अराजकता संचालित कर रहे हैं। राजस्व विभाग पता की दीली मौनीरंगिक कारण संस्कृत हाउस पता जाहां क्लेक्टर सहित बड़े अधिकारियों के बारे में अतिक्रमण हो चुका है व आगे भी युद्ध सर पर जारी है। अतिक्रामक न तो प्राचीन तालाबों, मदिरों, मकबरों की जमीन छोड़ रहे और न ही स्मशान व नाला की भूमि को छोड़ रहे। जहां देखो वहां अवैध शुगांगा बनाकर पड़ी है। चारों तरफ हरियाली फैली रहती थी। शेर जमीन के बड़े क्षेत्रों में तक सुनारे दीरे थी वह आज पूरी वीरान पड़ी हुई है। गरीब व निर्धन लोगों के नाम पर मदार दुंगा-बड़े-बड़े लोग कार्यक्रम कर इस पूरे ऐरिया की शब्दल बिगाड़ दी है। अतिक्रामकों का कब्जा होने से पूरे ऐरिया में गतिविधियों के साथ-साथ अराजकता संचालित कर रहे हैं। राजस्व विभाग पता की दीली मौनीरंगिक कारण संस्कृत हाउस पता जाहां क्लेक्टर सहित बड़े अधिकारियों के बारे में अतिक्रमण हो चुका है व आगे भी युद्ध सर पर जारी है। अतिक्रामक न तो प्राचीन तालाबों, मदिरों, मकबरों की जमीन छोड़ रहे और न ही स्मशान व नाला की भूमि को छोड़ रहे। जहां देखो वहां अवैध शुगांगा बनाकर पड़ी है। चारों तरफ हरियाली फैली रहती थी। शेर जमीन के बड़े क्षेत्रों में तक सुनारे दीरे थी वह आज पूरी वीरान पड



मैक्सी ड्रेस को वार्ड्रोब में शामिल करें, दिखेंगी स्टाइलिश और कूल

गर्मी में वही कपड़े सुहाते हैं, जो त्वचा को ठंडा रखें। यदि आप भी कृष्ण ऐसी ड्रेस पर विचार कर रही हैं तो इन दिनों मैक्सी ड्रेस फैशन में हैं। ये ड्रेस स्टाइलिश होने के साथ आपको कूल, कॉन्फिंडेंट और कम्फर्टेबल महसूस करवाएंगी। जानते हैं समर फैशन ट्रेंड के बारे में-

फ्लोरल रेप मैक्सी ड्रेस

रेप ड्रेस क्वासिक लुक देती है। समर में फ्लोरल रेप ड्रेस कूल होने के साथ ही कम्फर्टेबल भी होती है। मार्केट में फ्लोरल ड्रेस आपको कई सारे रंगों और पैटर्न में मिल जाएंगी। गर्मी में इसे हर जाह पहना जा सकता है। यह मैक्सी ड्रेस वेडिंग पार्टी से लेकर पार्टी तक स्टाइलिश लगेगी।

असिमेट्रिकल स्टाइल

असिमेट्रिकल मैक्सी ड्रेस की कई स्टाइल हैं, जिन्हें आसानी से पहना जा सकता है। दोस्तों से मिलना हो या ईमिंग पार्टी में शामिल होना हो, यह मैक्सी आकर्षक लगेगी। इसके साथ ऑवरसाइज कैप और जैलरी भी खूब फैलेंगी।



विच्स मैक्सी ड्रेस

पार्टी ड्रेस के साथ नाइट गाइन के लिए भी विच्स बहुत खूबी आरामदायक कपड़ा है। यह सॉफ्ट और स्ट्रेची फैब्रिक है। ऑवरसाइज लोगों के लिए यह आरामदायक है। विच्स मैक्सी ड्रेस आपको अलग-अलग स्टाइल और रंगों में मिल जाएगी। इसी तरह सिफारिश मैक्सी ड्रेस भी लाइट की जा सकती है।

आइलेट्स मैक्सी ड्रेस

समर में अपनी वार्ड्रोब में आप बोल्ड स्टाइल्स की ड्रेस को जगह देना चाहती हैं तो आइलेट्स मैक्सी ड्रेस बेस्ट ऑप्शन है। इसे आप जैकेट के साथ पहन सकती हैं। आइलेट्स एपर्चर्डरी फैब्रिक का वजन कम होता है और इसमें छोटे-छोटे छेद काढ़े को हवादार और ठंडा रखते हैं।

बोहो मैक्सी ड्रेस

बोहो स्टाइल की मैक्सी ड्रेस इन दिनों पार्टी के लिए एस्वर्से बेस्ट ड्रेस है। यह जितनी स्टाइलिश होती है, उतनी ही आरामदायक भी होती है। दिन में इसके साथ रेट्रो सेंडल्स एवं जैकेट खूब फैलेंगा। यदि आप नाइट पार्टी में इस मैक्सी ड्रेस को पहन रही हैं तो लाइट में कॉर्पेट के साथ ही हील्स पहनें। यह ज्यादा खिलेंगा।

ग्लैमर तड़का रुबीना दिलैक का छलका दर्द



एक ब्रेस्ट रुबीना बिलैक कुछ समय पहले ही जुड़वा बेटियों की मां बनी हैं। इन दिनों वह अपना मदरहुड कपड़ी पहजार कर रही है। मां बनने के बाद एक्ट्रेस की जिंदगी में काफी बदलाव आया है। अक्सर वह अपने अनुभव चाहने वालों के साथ भी शेयर करती रहती है। हाल ही में एक्ट्रेस अपनी पुरानी लाइफ को मिस करती नजर आई है। उनका है कि वह पति अभिनव के साथ रोमांटिक पलों को बहुत मिस करती है। वह जल्द ही पति अभिनव शुक्ला के साथ अपने रोमांटिक लाइफ में लौटना चाहती है। हाल ही में रुबीना ने बताया, अब हम सोशल मीडिया पर रोमांटिक फोटोज नहीं शेयर कर पाते। हमें एक दूसरे के साथ प्राइवेट टाइप बिताना बहुत पसंद है। एक दूसरे को चिढ़ाना अच्छा लगता था। पहले हम बहुत रोमांस किया करते थे, लेकिन अब हम सिफर यहीं करते हैं कि तुम ये बच्चे पकड़ लो मैं उसे संभाल लेती हूं। मैं अभिनव को हांग करना, उसके साथ सोना बहुत मिस करती हूं। हालांकि, अब मुझमें एनर्जी नहीं है।

यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एंबेसडर बनीं करीना



गर्मियों में ठंडक बढ़ाएगा वाटर गार्डन

कृष्ण पौधे ऐसे होते हैं जिनकों घर के अंदर सिर्फ़ पानी में या पानी और मिट्टी दोनों में थोड़ी-बहुत सजावट के साथ लगाएंगे तो घर का कोना किसी 'वाटर गार्डन' से कम नहीं लगेगा। इन्हें लगाने के लिए आप एक्स्ट्रीम रेटिंग दें। इन्हें सोल्स एवं जैकेट खूब फैलेंगे। यदि आप नाइट पार्टी में इस मैक्सी ड्रेस को पहन रही हैं तो लाइट में कॉर्पेट के साथ ही हील्स पहनें। यह ज्यादा खिलेंगा।



हियाली किसे पसंद नहीं होती है। बहुत से लोग गार्डनिंग करना चाहते हैं लेकिन व्यस्त जीवनशैली की वजह से उनके लिए पौधों की देखभाल करना बहुत नहीं होता है। दूसरी एक वजह है फ्लैट्स में ज्यादा खुली जगह न होना। लैकिन कुछ पौधे जैसे लकड़ी बैंबू, मनी प्लांट/पोथोज, एडोबैड/सिंगोनियम, कलिनियस, स्पाइडर प्लांट, फिलोडेंड्रन, वांडिंग ज्यू, क्रान्टन, पीसीलिली, डेलीना प्लांट आदि ऐसे हैं जिन्हें बहुत ही कम धूप और देखभाल की ज़रूरत होती है। इन पौधों को घर के अंदर सिर्फ़ पानी में या पानी और मिट्टी दोनों में थोड़ी-बहुत

सजावट के साथ लगाएंगे तो घर का कोना किसी 'वाटर गार्डन' से कम नहीं लगेगा। इस तरह का गार्डन देखार करने के लिए ज्ञादा पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे। इन्हें लगाने के लिए आप अपने आसपास किसी भी गार्डन से कलम से सकते हैं।

वाटर गार्डन तैयार करने के लिए अपने घर में पैडे पुराने कांच के गिलास, जार, मग, कप या फिर डिब्बे आदि में पौधे लगा सकते हैं। इन पौधों को स्थिर रखने के लिए जार या मग में छोटे-छोटे रोगीन पथर भी डाल सकते हैं। इससे पौधों की खूबसूरती और बढ़ जाएगी।



बच्चों को खिलाने से पहले हेल्दी की करें पहचान

जंक फूड के प्रति बढ़ती दिलचस्पी बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक बच्चों की गोथ के लिए खानापान का रखें ध्यान

बच्चों के सही विकास और उनके ग्रोथ के लिए खानापान का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यहीं वजह है कि बच्चों के खानापान को लेकर हर ऐप्टें परेशन रहता है। बच्चे अक्सर खने-पीने में नखरे करते हैं जिसकी वजह से उनके शरीर में कई ज़रूरी पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। खने में आनाकानी और जंक फूड के प्रति बढ़ती दिलचस्पी बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। ऐसे में अपने बच्चों की सेहत बनाने के लिए कई ऐप्टें बच्चों उन्हें कुछ ऐसे ही खानापान रखते हैं, जो असल में उनकी सेहत के लिए हानिकारक होता है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं, जो अपने बच्चों को हेल्दी बनाना में लिए हेल्दी फूड आइटम्स खिलाते हैं, तो आज ही उनकी डाइट में इन तीन चीजों को बाहर कर दें।

हेल्थ ड्रिंक

बाजार में कई तरह की हेल्थ ड्रिंक मिलती हैं, जिन्हें ज्यादा तरल लोग हेल्दी मानते हैं। लैकिन अपनी डाइट में शामिल करते हैं, लैकिन असल में यह सेहत के लिए काफी चीज़ों से भरे डब्बे होते हैं। ऐसे में इनके सेवन से बच्चों की सेहत को नुकसान पहुंच सकता है।

कूकीज

लोग अक्सर हेल्दी रहने के लिए मैं बर की जगह डाइजेस्टिव और गेहूं के आठे की विस्किट और कुकीज़ की डाइट में शामिल करते हैं। हालांकि, डाइजेस्टिव लोग ने गेहूं के आठे से बने यह व्यस्ति का बहुत नहीं है। इन्हें लैकिन असल में सिर्फ़ मेंदा और गोंदी की ही मिश्रण होता है। साथ ही इनमें पाम और गेहूं की मिश्रण जाता है, जो आपके बच्चे की सेहत के साथ खिलवाड़ साखित हो जाता है। यहीं से भरपूर से प्रोडक्ट्स बच्चों की शुगर के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं।

पैकेज अनाज

कई सारे पेरेंट्स अक्सर बच्चों को नाश्ते में अलग-अलग फ्लैट्स अपेक्षित करते हैं जो अन्य बच्चों को देते हैं, जिनमें पौष्टिक अनाज से बुराग लोगों के लिए बहुत होते हैं। यह अन्य बच्चों को देते हैं, लैकिन बावजूद इसके यह शुगर लेवल को स्प्राइकर कर सकते हैं, जिसके भविष्य में गंभीर परिणाम देखने की चिन्ह सकती है।

करीना कपूर खान हाल ही में फिल्म 'कू' में नजर आई थी। फिल्म बॉक्स-ऑफिस पर हिट रही थी। इन दिनों करीना कपूर एक बार फिर सुर्खियों में बनी हुई है, लैकिन इस बार एक्ट्रेस के खबरों में बने होने की वजह से उनकी काई फिल्म नहीं है। 4 मई को यूनिसेफ इंडिया ने बॉलीवुड स्टार करीना कपूर खान को अपना नया नेशनल एंबेसडर बनाया। जाने के बाद 'कू' एक्ट्रेस ने कहा कि यूनिसेफ इंडिया के साथ उनकी जर्नी एक दशक पुरानी है। करीना 2014 से यूनिसेफ संग जुड़ी हुई है। वह प्रत्येक बच्चे के प्रारंभिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और लैंगिक समानता के अधिकार को आगे बढ़ाने में यूनिसेफ का सहयोग करती आई है। यूनिसेफ इंडिया का नेशनल एंबेसडर बनाया जाने के बाद 'कू' एक्ट्रेस ने कहा कि यूनिसेफ इंडिया के साथ उनकी जर्नी एक दशक पुरानी है। वह प्रत्येक बच्चे के लिए विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और लैंगिक समानता के अधिकार को आगे बढ़ाने में यूनिसेफ का सहयोग करती आई है। यूनिसेफ की तरफ से ये बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर, करीना ने अपने आकिशियत इंस्ट्राग्राम हैंडल पर लेटेस्ट पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में करीना ने यूनिसेफ इंवेंट

